



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 ज्येष्ठ 1934 (श0)
(सं0 पटना 253) पटना, बुधवार, 13 जून 2012

सं0 वि02-51/99/734/वि0
वित्त विभाग

संकल्प
12 जून 2012

विषय:- बिहार सामान्य भविष्य निधि/ अंशदायी भविष्य निधि अभिदाताओं के खाता में संचित राशि पर वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए दिनांक 01.4.2011 से दिनांक 30.11.2011 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 8% (आठ प्रतिशत) एवं दिनांक 01.12.2011 से दिनांक 31.3.12 तक 8.6% (आठ दशमलव छः प्रतिशत) तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान दिनांक 01.4.12 के प्रभाव से ब्याज दर 8.8% (आठ दशमलव आठ प्रतिशत) किये जाने के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प सं0-2768 दिनांक 22.11.2011 द्वारा भविष्य निधि/ अंशदायी/ भविष्य निधि में वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए दिनांक 01.4.2010 से ब्याज की दर 8% (आठ) प्रतिशत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की तरह लागू की गई थी ।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के संकल्प सं0 5 बी0 (पी0डी0)/ 2011 दिनांक 19.3.12 के द्वारा सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं के खाते में संचित राशि पर दिनांक 01.4.2011 से 30.11.2011 की अवधि के लिए 8% (आठ प्रतिशत) एवं दिनांक 01.12.11 से दिनांक 31.3.12 तक 8.6% (आठ दशमलव छः प्रतिशत) तथा संकल्प संख्या- एफ0संख्या-5 (1) (वी0पी0डी0), दिनांक 22.5.12 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान दिनांक 01.4.12 के प्रभाव से 8.8% (आठ दशमलव आठ प्रतिशत) की दर से ब्याज का निर्धारण किया गया है ।

3. अतः राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी राज्य कर्मियों के सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि अभिदाताओं के खाते में संचित राशि पर दिनांक 01.4.2011 से दिनांक 30.11.2011 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 8% (आठ प्रतिशत) एवं दिनांक 01.12.2011 से

दिनांक 31.3.12 तक ब्याज-दर 8.6% (आठ दशमलव छः प्रतिशत) तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान दिनांक 01.4.12 के प्रभाव से ब्याज दर 8.8% (आठ दशमलव आठ प्रतिशत) लागू होगी ।

4. जहाँ तक पटना उच्च न्यायालय/ बिहार विधान परिषद्/ बिहार विधान सभा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अंशदान की राशि पर ब्याज के उक्त दर के निर्धारण का प्रश्न है, इस संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/ माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद/ माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित कार्यालय/ सचिवालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता,
सरकार के उप-सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 253-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>